



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1940 (श10)
(सं० पटना 806) पटना, बुधवार, 29 अगस्त 2018

विधि विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त 2018

सं० एल०आर०टी०-01-01/2001-7009/जे०—बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम बिहार अधिनियम) (यथा संशोधित) की धारा-8 की उपधारा-1 के द्वारा विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञाप संख्या-1903/जे०, दिनांक 20.04.2010 द्वारा गठित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की कालावधि समाप्त होने तथा पर्षद के अध्यक्ष, आचार्य किशोर कुणाल के अध्यक्ष पद से सेवामुक्त किये जाने सम्बंधी अनुरोध के आलोक में विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञाप संख्या-1903/जे०, दिनांक 20.04.2010 द्वारा गठित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को राज्य सरकार द्वारा तात्कालीक प्रभाव से विघटित करते हुये, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के “पुनर्गठन” तक, अस्थायी व्यवस्था के तहत, सरकार के तत्कालीन सचिव, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना को बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (यथा संशोधित) की धारा-8क के प्रावधानानुसार बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद का “प्रशासक” नियुक्त किया गया था।

2. सरकार के तत्कालीन सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार, पटना श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा का दिनांक 01.05.2018 को असामयिक निधन हो जाने के फलस्वरूप “प्रशासक” का पद रिक्त हो गया। जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में विघटित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के “पुनर्गठन” तक, अस्थायी व्यवस्था के तहत,

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार, पटना को, बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (यथा संशोधित) की धारा-8क के प्रावधानानुसार बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद का “प्रशासक” नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 806-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>